

प्रेस नोट

भारतीय उर्वरक संघ (FAI) द्वारा कृषि आदान उर्वरक पर विक्रेता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

दिनांक 07 मई 2019

आज दिनांक 07 मई 2019 को कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अनुसंधान संस्थान के सभागार प्रांगण में भारतीय उर्वरक संघ (FAI) द्वारा कृषि आदान उर्वरक पर विक्रेता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री जगपाल सिंह सयुक्त निदेशक कृषि निदेशालय जयपुर द्वारा जिले के विक्रेताओं को उर्वरक में गुण नियंत्रण, उर्वरक व्यवसाय हेतु FCO के कानूनी प्रावधानों के बारे में अवगत कराया

उन्होंने उर्वरक एवं बीज प्रयोगशालाओं में आधुनिक तकनीक से उर्वरक नमूनों के परीक्षण से गुणवत्ता में सुधार होने के बारे में बताया

विशिष्ट अतिथि डॉ. डी. एस. यादव निदेशक भारतीय उर्वरक संघ (FAI) ने भारतीय कृषि में उर्वरकों के परिदृश्य के बारे में बताया उन्होंने विक्रेताओं को उर्वरक व्यवसाय बढ़ाने हेतु कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए

श्री भानुप्रताप DBT कोर्डिनेटर जयपुर ने उर्वरक में हल ही में जारी की गई DBT योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई एवं उर्वरक विक्रय हेतु POS मशीन की विभिन्न नवीनतम जानकारीयों उपलब्ध कराई

श्री ए. के. मंगल वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक इफको ने उर्वरक वितरण एवं विक्रय के बदलते परिवेश में उर्वरक विक्रेताओं की सक्रिय भूमिका के बारे में सम्बोधित किया उन्होंने उर्वरक व्यवसाय में कृषि विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के तहत उर्वरक व्यवसाय करने हेतु सुझाव दिए

विशिष्ट अतिथि श्री एन. के. भादू महा प्रबंधक कृभको नोएडा ने उर्वरक के उत्तम हथलन एवं भण्डारण विषय पर जानकारी दी

उन्होंने आदर्श उर्वरक भण्डारण हेतु विक्रेताओं को वातावरण तापमान जैसे कारको पर ध्यान देने के साथ उपयुक्त गोदाम प्रबंधन करने का आवाहन किया इसके साथ ही POS मशीन के माध्यम से अनिवार्य रूप से किसानो को उर्वरक विक्रय करने का सुझाव दिया

कार्यक्रम अध्यक्ष डॉ. उम्मेद सिंह अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय जोधपुर ने खाद्य उत्पादन में उर्वरको की महती भूमिका के बारे में अवगत कराया

उन्होंने परम्परागत उर्वरको के साथ साथ कस्टमाइज़ उर्वरको के अनुसंधान एवं फसल परीक्षण का सुझाव दिया, उन्होंने जलविलेय उर्वरको तथा तरल जैव उर्वरको के उपयोग से इनकी कार्य क्षमता बढ़ाकर अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करने के बारे में बताया

इसके अलावा उपयुक्त फसल चक्र अपनाने एवं कृषि में नवीनतम तकनीक द्वारा अधिक उपज प्राप्त करने के बारे में बताया

कार्यक्रम में जिले के निजी उर्वरक विक्रेताओं, सहकारी समितियों के कर्मचारी, महाविद्यालय के छात्रों के साथ समस्त उर्वरक कंपनियों के अधिकारियों ने भाग लिया मंच संचालन **श्री हरेन्द्र कौशिक प्रबंधक भारतीय उर्वरक संघ (FAI)** ने किया एवं समस्त प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया



कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
Agriculture University, Jodhpur



FAI Northern Region
Inauguration Program
Jodhpur

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
Agriculture University, Jodhpur

SHARP



HARINDER KAUSHIK
FAI, New Delhi

N.K. BHADU
KRSINCO, Noida

D.S. YADAV
FAI, New Delhi

JAGPAL SINGH
Director of Agri. Jodhpur

UMMED SINGH
Agriculture University, Jodhpur

A.K. MANGAL
IFCO, Jodhpur